

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

प.वि.(न.दि.)सं. S22/सीएमएस V/05.19.439/2023-24

10 अप्रैल 2023

स्पीड-पोस्ट

The Managing Director
Standard Capital Markets Limited
Unit No. G-17, Krishna Apra Business Square,
Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi- 110034

महोदय


Standard Capital Markets Limited– नियंत्रण में प्रस्तावित परिवर्तन की अनुमति।

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपने आवेदन का संदर्भ लें।

2. इस विषय में सूचित किया जाता है कि Shri Ram Gopal Jindal को आपकी कंपनी में 5,00,262 (19.48%) शेयर अर्जित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3. आपको यह भी सलाह दी जाती है कि अनुलग्नक में दिए गए नियमों और शर्तों का पालन सुनिश्चित करें।

भवदीय



(एस. पी. सिंह)
सहायक महाप्रबंधक

संलग्न : यथोक्त



Annex to letter no. DoS.ND.S22 /CMS-VI/05.19.439/2023-24 dated April 10, 2023

The company's request for prior approval for change in control has been acceded to subject to the following conditions and submission of requisite documents / information mentioned as under: -

- i) The approval is valid only for six months from the date of this communication. In case the company fails to effect the change within this timeframe it has to apply again with reasons for failing to effect such change on earlier occasion.
- ii) The company has to ensure on "Requirement of Prior Public Notice about change in control/management" as per para 5 of Notification No. DNBS.(PD) 029/CGM(CDS-2015) dated July 09, 2015.
- iii) The original public notice as mentioned above should be submitted to us within seven days of its publication.
- iv) The details of objection, if any, received from any member of public to the above public notice, are required to be furnished to us immediately on receipt. In case no objection is received from any member of public, a confirmation to this effect may be submitted after expiry of 30 days from the date of public notice.
- v) The company is not authorized to raise deposits from the public in any manner or form.
- vi) The company shall inform us immediately, as and when its total asset approaches ₹500 crore without waiting for the latest balance sheet.
- vii) The company shall inform us immediately, in case its Net Owned Fund, as defined in the RBI Act, 1934, falls below the minimum limit prescribed by the Bank
- viii) The company shall comply with all the Directions/ Regulations/ Instructions issued by the Bank to NBFCs from time to time and for this may regularly visit the website of the Bank (www.rbi.org.in) .
- ix) Any change in the constitution of the Board of Directors of the company or in management of the company, whether by change of control or otherwise, shall be only with our approval.

